

## अल्पसंख्यांक बातम्या

दिनांक :

27/11/2015

1. दै.उर्दू टाइम्स में प्रकाशित जाहिरात के अनुसार अल इन्साफ पब्लिक फाऊंडेशन के अंतर्गत ऑल महाराष्ट्र इन्सानियत अभियान कॉन्फरन्स का आयोजन 28 नवंबर शनिवार के दिन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आंबेडकर ग्राउंड, गोवंडी, मुंबई में इन्साफ लाओ देश बचाओ हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाओ के मुद्दे पर किया जा रहा है. जिसमे मा.मुख्यमंत्री, श्री.देवेन्द्र फडणवीस, मा.मंत्री, श्री.प्रकाश मेहता, मा.राज्यमंत्री, श्री.संजय राठोड, मा.मंत्री, श्री.गिरीष बापट, पुलिस आयुक्त अमीद जावेद, आ.अबु आसीम आझमी व अन्य उपस्थित रहेंगे.
2. निजात इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्गनीस ऑर्गनायझेशन की ओर से मुंबई के अंजुमन इस्लाम करीमी लायब्ररी में एक सभा का आयोजन करके 26/11 आतंकवादी हमले की सक्त निंदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजली पेश की गई. फाऊंडेशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीजेपी के आमदार एड.आशिष शेलार ने कहा के निजात फाऊंडेशन पिछले आठ बरसों से जिहाद के विरुद्ध देश भर में तहरीक चलाकर जिहाद से संबंधित बातों को समाज सुधार के नाम पर अंमल करने काम कर रही है. फाऊंडेशन के अध्यक्ष, फारुख आझम, हैदर आझम, डॉ.मेहमूदूर रहेमान, मौलाना सय्यद अत्तर अली और सलीम अलोरे ने अपने विचार व्यक्त किये.
3. दर्गा हजरत मुखदूम शहा माहीमी की ओर से आई.एस. के विरुद्ध प्रदर्शन. 26/11 मुंबई हमलों की बरसी को देखते हुए दर्गा हजरत मुखदूम शहा माहीमी ट्रस्ट की ओर से दर्गा के बाहर आतंकवादी संस्था आई.एस.आय.एस. के विरुद्ध प्रदर्शन किया. जिसमे उलमाए कराम वरीष्ठ सामाजिक व्यक्ती के अलावा मोठी संख्या में

जनता ने भाग लिया और आतंकवाद की निंदा की. इस अवसर पर मौलाना माईन मियाँ ने कहा के इस्लाम धर्म शांती का धर्म है. यह संस्था उसके विरुद्ध है. इस कार्यक्रम में दर्गा के ट्रस्टी सोहेल खंडवाणी, डिसीपी महेश पाटील, डॉ.आ.आशिष शेलार, आ.वारिस पठाण व अन्य उपस्थित थे.

4. परभणी महापालिका की हद्द में अधिकृत और अनधिकृत मस्जिद और दर्गाओं के बारे में एतराज जमा करने की तारीख 31 डिसेंबर तक बढ़ाती. इसके बाद किसी ऐतराज पर गौर नहीं किया जाएगा. ऐसी सूचना कमिशनर बलदिया परभणी की ओर से जारी की गयी है.

माहितीसाठी सादर,